



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 वैशाख 1940 (श0)
(सं0 पटना 447) पटना, शुक्रवार, 18 मई 2018

सं० पि०व०/विविध-25-12/2018-1064
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

17 मई 2018

विषय:— “मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना” के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अग्रेतर तैयारी हेतु एकमुश्त रू० 50,000/—(पचास हजार रू०) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एकमुश्त रू० 1,00,000/—(एक लाख रू०) का लाभ देने की स्वीकृति।

राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में सम्मिलित होते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आर्थिक कठिनाईयों के कारण मुख्य परीक्षा के पूर्व परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग/पर्याप्त मार्ग दर्शन एवं उपयोगी पुस्तक क्रय करने में सक्षम नहीं रहते हैं। वर्णित परिस्थिति में मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु आर्थिक सहायता देना समीचीन प्रतीत होता है।

2. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में “मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना” के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अग्रेतर तैयारी हेतु एकमुश्त रू० 50,000/—(पचास हजार रू०) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एकमुश्त रू० 1,00,000/—(एक लाख रू०) का लाभ देने की स्वीकृति दी जाती है।

3. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का बिहार का मूल निवासी होना एवं राज्य/संघ लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

4. पूर्व से किसी भी सरकारी/लोक उपक्रमकी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

5. किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार देय होगा।
6. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु मार्ग दर्शिका पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के स्तर पर निर्गत की जाएगी।
7. इस योजना के लिए व्यय राज्य स्कीम के मांग सं०-11-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत आय-व्ययक मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उपशीर्ष-0101-शिक्षा, विपत्र कोड-11-2225032770101, विषय शीर्ष-34-छात्रवृत्ति/वजीफा (0101.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा) के अंतर्गत विकलनीय होगा।
- आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार- राज्यपाल के आदेश से,
प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 447-571+1500-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>